

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/398

दिनांक - 18/11/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल ने किया ग्रामीण बाल स्वास्थ्य (बेबी शो) प्रतियोगिता का आयोजन

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने शुक्रवार को अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के तहत खिरवा गांव में छोटे बच्चों के लिए ग्रामीण बाल स्वास्थ्य (बेबी शो) प्रतियोगिता का आयोजन किया। एनसीएल एनसीएल के केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली के मुख्य चिकित्सा सेवाएं डॉ. उमाशंकर एवं डॉ. मीनाक्षी राणा की टीम ने कंपनी के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी), जयंत के बाल रोग विभाग और कृति महिला मंडल के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृति महिला मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय एवं श्रीमती कौशल्या शास्त्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं।

खिरवा गांव की शासकीय प्राथमिक पाठशाला में इस बेबी शो आयोजन किया गया, जिसमें 5 वर्ष तक के 201 ग्रामीण बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। सभी बच्चों को एक वर्ष से कम, 1 से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष तक के तीन वर्गों में विभाजित कर उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। स्वास्थ्य जांच के दौरान हर वर्ग में उत्कृष्ट स्वास्थ्य वाले प्रथम तीन बच्चों को महिला मंडल की पदाधिकारियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही, कैंप में आए सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए।

एनएससी जयंत एवं केंद्रीय चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम ने बच्चों के मां-बाप को बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर बेहतर देखभाल की टिप्स दी और उनसे बच्चों के लिए सभी आवश्यक टीकाकरण समय से पूरा कराने को कहा। बच्चों के मां-बाप ने एनसीएल की टीम और कृति महिला मंडल की सदस्याओं को उनके गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप शिविर आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। चिकित्सकों की टीम में डॉ. मंजरी मेहता, डॉ. भाश्वती पंडित, पंडित, डॉ. कल्पना गुप्ता, डॉ. वी. देबनाथ, डॉ. बी. के. गुप्ता और डॉ. तिवारी शामिल थे।

बेबी शो में अधिक से अधिक बच्चों को शामिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय चिकित्सालय की टीम ने कई दिन पहले से से आस-पास के गांवों में पंफ्लेट बांटकर बेबी शो का व्यापक प्रचार किया था, जिसके चलते कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिरवा और उसके आस-पास के बच्चों ने भाग लिया।

महाप्रबंधक (का./जनसंपर्क)